



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 348]
No. 348]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 2, 2007/चैत्र 12, 1929
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 2, 2007/CHAITRA 12, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2007

का.आ. 507(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 426.661 कि.मी. (बंगलौर-सेलम-मदुरई सेक्शन) से 41.000 कि.मी. (मदुरई-कन्याकुमारी सेक्शन) तक के भूखंड का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष जिला राजस्व अधिकारी (भूमि अर्जन-रारा), विरुधुनगर को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 426.661 कि.मी. (बंगलौर-सेलम-मदुरई सेक्शन) से 41.000 कि.मी. (मदुरई-कन्याकुमारी सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	मदुरई	मदुरई दक्षिण	थोप्पुर	66/4 बी 1	निजी	नम	179
				70/3ए1	निजी	नम	1700
				70/3ए1	निजी	नम	350
				70/4बी1	निजी	नम	920
				70/4बी2	निजी	नम	327
				70/4बी3	निजी	नम	1570
				70/6	निजी	नम	184
				70/8	निजी	नम	150
				70/9	निजी	नम	150
				70/12	निजी	नम	164
				70/13	निजी	नम	350
				71/6	निजी	नम	476
				71/7	निजी	नम	50
				71/8ए1	निजी	नम	2040
				71/8ए2	निजी	नम	1050
				71/9ए1	निजी	नम	578
				71/9बी1	निजी	नम	160
				71/14ए	निजी	नम	374

[फा. सं. भाराराप्रा/तक/एलए/एमके/थोप्पुर 3(ए) 1/2007]

प्रभाकर, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2007

S.O. 507(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four-

laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 7, on the stretch of land from Km. 426.661 (Bangalore-Salem-Madurai Section) to Km. 41.000 (Madurai-Kanniyakumari Section) in District Madurai, in the State of Tamil Nadu, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under Sub-section (1) of Section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the special District Revenue Officer, (LA-NH), Virudhunagar, in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under Sub-section (2) of the Section 3C of said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 426.661 (Bangalore-Salem-Madurai Section) to Km. 41.000 (Madurai-Kanniyakumari Section) of National Highway No. 7 in the State of Tamil Nadu

Sl. No.	Name of the District	Name of the Taluk	Name of the Village	Survey Number	Type of land	Nature of land	Area (in square metres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Madurai	Madurai South	Thoppur	66/4B1	Private	Wet	179
				70/3A1	Private	Wet	1700
				70/3A1	Private	Wet	350
				70/4B1	Private	Wet	920
				70/4B2	Private	Wet	327
				70/4B3	Private	Wet	1570
				70/6	Private	Wet	184
				70/8	Private	Wet	150
				70/9	Private	Wet	150
				70/12	Private	Wet	164
				70/13	Private	Wet	350
				71/6	Private	Wet	476
				71/7	Private	Wet	50
				71/8A1	Private	Wet	2040
				71/8A2	Private	Wet	1050
				71/9A1	Private	Wet	578
				71/9B1	Private	Wet	160
				71/14A	Private	Wet	374

[F. No. NHAI/Tech/LA/MK/Thoppur 3(A) 1/2007]

PRABHAKAR, Dy. Secy.